

प्रेस विज्ञप्ति

### पद्मश्री अवार्ड के लिए चयन पर जामिया कर्मचारी एसोसिएशन ने दी वीसी को बधाई

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) की तीन कर्मचारी एसोसिएशन ने कुलपति प्रो नजमा अख्तर को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार के लिए चयन के लिए बधाई दी।

जामिया टीचर्स एसोसिएशन (जेटीए) ने अपने संदेश में कहा कि जामिया में कुलपति के रूप में प्रो अख्तर ने विश्वविद्यालय का कुशल नेतृत्व किया है। जिसके चलते विश्वविद्यालय ने अकादमिक और शोध प्रोफाइल में काफी सुधार किया और परिणामस्वरूप यूजीसी, भारत सरकार के नैक द्वारा ए<sup>++</sup> ग्रेड प्राप्त किया। वैश्विक महामारी के लम्बे दौर सहित कई चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने सुनिश्चित किया कि शिक्षण, परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया बिना किसी अंतराल के चलती रहें। उन्होंने लंबे समय से लंबित टीचिंग के मुद्दों को हल किया है और बचे हुए मसलों को हल करने के लिए भी ईमानदारी से काम कर रही हैं। एसोसिएशन ने उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं।

जामिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन (JASA) ने अपने बधाई संदेश में कहा कि यह पूरी जामिया बिरादरी के लिए बड़े गर्व की बात है कि उनकी वाइस चांसलर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एसोसिएशन ने कहा कि विश्वविद्यालय को अपनी वाइस चांसलर जैसे रहनुमा पर गर्व है जिन्होंने संस्थान को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एसोसिएशन ने अपने पत्र में लिखा, "आप जामिया बिरादरी के लिए एक जीवंत रोल मॉडल हैं।"

शफीकुर रहमान किदवई (SRK) एसोसिएशन ने भी कुलपति को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

कुलपति ने कहा कि यह मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के लिए उपलब्धि है क्योंकि संस्था के हर कर्मचारी ने कड़ी मेहनत की है। मैं अपने परिवार, मित्रों और सहकर्मियों को धन्यवाद देती हूँ जो हर मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े रहे।

जनसंपर्क कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया